

फा.स.8/01/2018-गोप-1/2

कर्मचारी चयन आयोग

दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा, 2018-अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड परीक्षा(शा.मा.प.) तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा(शा.क्ष.प.) में बुलाने के लिए प्रश्नपत्र-1 के परिणाम की घोषणा ।

कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षकों और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक उप निरीक्षकों की भर्ती परीक्षा, 2018-(प्रश्नपत्र-1) के लिए, दिनांक **12.03.2019** से **16.03.2019** तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया गया था । जिसमें कुल 2,32,514 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे ।

2. चूंकि कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन एक से अधिक पालियों में आयोजित किया गया था, अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर दिनांक 07.02.2019 को प्रकाशित सूत्र के अनुसार सामान्यीकृत किया गया है । ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अभ्यर्थियों को परीक्षा के शारीरिक मापदंड परीक्षा(शा.मा.प.) तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा(शा.क्ष.प.) में अर्हक घोषित करने के लिए किया गया है ।

3. अनंतिम उत्तर कुंजियों के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों की सावधानीपूर्वक जांच की गई तथा उत्तर कुंजियों को जहां कहीं भी अपेक्षित हो उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया तथा अंतिम रूप दिया गया है । परीक्षा में अभ्यर्थियों के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु अंतिम उत्तर कुंजियों का प्रयोग किया गया है ।

4. प्रश्नपत्र-1 में आयोग द्वारा निर्धारित कट-ऑफ के आधार पर, शा.मा. परीक्षा तथा शा.क्ष. परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अर्हक अभ्यर्थियों की संख्या निम्नानुसार हैं :

(i) सूची-1 : महिला -खुली रिक्तियां

	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग
कट-ऑफ अंक	110.31	99.50	127.51	137.60	
उपलब्ध अभ्यर्थी	386	237	812	735*	2170

* 25-अजा, 12-अजजा और 384-अपिव अभ्यर्थी अना मानक पर अर्हता प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

(ii) सूची-II: पुरुष - खुली रिक्तियां :

	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	भूपूसै
कट-ऑफ अंक	114.23	111.17	133.36	140.08	--	59.64
उपलब्ध अभ्यर्थी	3065	1713	6736	5902*	17416	1864

* 386-अजा, 143-अजजा और 3826-अपिव अभ्यर्थी अना मानक पर अर्हता प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है। भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को भी उनके संबंधित ऊर्ध्वाधर श्रेणी(अर्थात अजा,अजजा,अपिव तथा अना) में शामिल किया गया है।

(iii) सूची-III: पुरुष - विभागीय अभ्यर्थी(दिल्ली पुलिस) :

	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग
कट-ऑफ अंक	55.91	58.26	87.67	93.43	--
उपलब्ध अभ्यर्थी	386	190	626	360*	1562

* 105-अजा, 55-अजजा और 530-अपिव अभ्यर्थी अना मानक पर अर्हता प्राप्त कर रहे हैं जिन्हें उनकी संबंधित श्रेणियों में दर्शाया गया है।

(iv) सूची-IV: पुरुष - भूतपूर्व सैनिक की विशेषज्ञ श्रेणी (दिल्ली पुलिस) :

	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग
कट-ऑफ अंक	50.00	50.00	60.00	70.00	--
उपलब्ध अभ्यर्थी	07	01	38	62	108

5. आयोग के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय ने ओ.ए. संख्या 1465/2018,1434/2018, 1479/2018 तथा 1469/2018 से संबंधित लंबित न्यायालयिक मामले की एक सूची मुहैया कराई है। उन ओ.ए. संख्या में शामिल 22 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। निम्नलिखित सूची में यथा सूचित अनुक्रमांकों के उन अभ्यर्थियों के परिणाम पर रोक लगायी गई है :

2201004 228	2201022 302	2201027 944	2201028 683	2201030 983	2201033 115
2201051 569	2201052 233	2201054 571	2201056 558	2201061 900	2201076 938
2201077 935	2201086 533	2201086 555	2201102 594	2201103 302	2201107 099

2201117 416	2201170 102	2201175 212	2201183 700	--	--
----------------	----------------	----------------	----------------	----	----

6. 07 परीक्षा से वारित अभ्यर्थियों का इस परीक्षा में बैठने का पता चला है। उन अभ्यर्थियों का परिणाम तैयार नहीं किया गया है। उन 07 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक निम्नानुसार है :

300900759	3009006904	3206001732	3206600871
3206603532	3206606351	4410007078	

7. अर्हक अभ्यर्थियों को शा.मा. परीक्षा तथा शा.क्ष. परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जिसे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित की जाएगी।

8. उक्त परीक्षा का प्रश्नपत्र-11 दिनांक 27.09.2019 से आरंभ होने की संभावना है। शारीरिक मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा का कार्यक्रम आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा यथा समय पर सूचित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि शारीरिक मापदंड परीक्षा तथा शारीरिक क्षमता परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र के जारी होने के संबंध में वे आयोग की क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट को देखते रहे।

9. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों की श्रेणी स्थिति उनके अनुक्रमांकों के साथ दर्शायी गई है। ऐसे अभ्यर्थियों को यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि उन्हें केवल उनके अनुक्रमांक के सामने उल्लिखित श्रेणी के लिए ही अर्हक घोषित किया गया है। यदि उनकी वास्तविक श्रेणी उल्लिखित श्रेणी से मेल नहीं खाती है, तो वह इस सूची में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होंगे। अतः यह संबंधित अभ्यर्थियों के हित में है कि ऐसे सभी मामलों में वे तत्काल आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से सम्पर्क करें।

10. अभ्यर्थियों के अंक यथा-समय पर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे।

अवर सचिव(गोपनीय-

25.05.2019